

(GCF-9, 11, 12, 13, 14, 15, VCF-VDCF-SCF-3, VTW-1+Fnd, VDTW-1+Fnd, GTW-1+Fnd, STW-1+Fnd, JCC 12th+Foundation)
DATE: 24.05.2022 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 2 Hours**

ECONOMICS AND COMMERCIAL KNOWLEDGE**All Questions is compulsory.**

1. Ans. b
 Explanation:
 अर्थशास्त्र में सीमितता एक सापेक्ष अवधारणा हैं, क्योंकि दो देशों में सीमितता का एक अर्थ नहीं होता है।
2. Ans. b
 Explanation:
 निर्णय प्रक्रिया में हम कई समाधानों में से एक श्रेष्ठ समाधान का चुनाव करते हैं।
3. Ans. c
 Explanation:
 व्यवसायिक अर्थशास्त्र प्रगतिशील है, इसलिये वह व्यवहारिक और वास्तविक तो हैं परन्तु भावात्मक नहीं है।
4. Ans. c
 Explanation:
 व्यवसायिक अर्थशास्त्र आदर्श मूलक अधिक होता है क्योंकि वह मूल्य निर्णयन से गुजरता है, परन्तु वह वास्तविक भी होता है।
5. Ans. d
 Explanation:
 उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है ।
6. Ans. b
 Explanation:
 सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम की प्रमुख मान्यता यही है कि किसी भी वस्तु का उपयोग लगातार होना चाहिये।
7. Ans. a
 Explanation:
 उपभोक्ता साम्य की अवस्था में तभी होता है जब सीमान्त उपयोगिता उसके मूल्य के बराबर होती है ।
8. Ans. a
 Explanation:
 उपभोक्ता की बचत का क्षेत्र सदैव मांग वक्र से नीचे तथा मूल्य से उपर होता है।
9. Ans. b
 Explanation:
 यदि कोई बिन्दु कीमत रेखा के अंदर स्थित है, तो इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता अपनी क्षमता से कम खर्च कर रहा है।
10. Ans. d
 Explanation:
 उदासीनता वक्र विश्लेषण में हम सदैव दो वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, ना कि किसी एक वस्तु का।

11. Ans. d
Explanation:
लेखांकन लाभ कुल आगम में से स्पष्ट लागतों को घटाने पर प्राप्त होता है।
12. Ans. b
Explanation:
आर्थिक सिद्धान्त में यह माना जाता है कि फर्म का अन्तिम उद्देश्य होता है लाभों को अधिकतम करना, फर्म के आकार या व्यावसायिक संगठन के प्रारूप की अनदेखी करके।
13. Ans. c
Explanation:
लाभ तब अधिकतम होता है, जब कुल आगम कुल लागत से अधिक होती है, न कि बराबर।
14. Ans. d
Explanation:
प्रतिस्पर्धी फर्म मूल्य विभेदीकरण नहीं कर सकती है।
15. Ans. d
Explanation:
परिवहन लागतों की अनुपस्थिति शुद्ध प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त नहीं है।
16. Ans. a
Explanation:
एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार पूर्ण प्रतियोगिता से भिन्न है क्योंकि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म उत्पादन विभेदीकरण करती है। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएँ समरूप होती हैं।
17. Ans. c
Explanation:
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म मूल्य विभेदीकरण नहीं कर सकती।
18. Ans. a
Solve Q. No. 18 to 21 with help of this table
- | Quantity | AVC | TVC | TC | MC | AFC | TFC |
|----------|-----|-----|-----|----|-------|-----|
| 1 | 20 | 20 | 60 | -- | 40 | 40 |
| 2 | 18 | 36 | 76 | 16 | 20 | 40 |
| 3 | 18 | 54 | 94 | 18 | 13.33 | 40 |
| 4 | 20 | 80 | 120 | 26 | 10 | 40 |
| 5 | 22 | 110 | 150 | 30 | 8 | 40 |
- Explanation:
 $TC - TFC = TVC$
 $150 - 40 = 110$
19. Ans. c
Explanation:
 $MC = \frac{DTC}{DQ} = \frac{30}{1} = 30$
20. Ans. a
Explanation:

$$AVC = \frac{TVC}{Q} = \frac{54}{3} = 18$$

21. Ans. b
Explanation:
 $TFC + TVC = TC$
 $40 + 36 = 76$
22. Ans. c
Explanation:
आदर्श मूलक कथन सदैव यह बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
23. Ans. d
Explanation:
मूल्य निर्णयन क्या सही है और क्या गलत है का अध्ययन करता है।
24. Ans. c
Explanation:
उत्पादन की लागते व बैंक की कार्य अवधि माँग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करती है।
25. Ans. c
Explanation:
क्योंकि आराम व आय पूर्ण स्थानापन्न है।
26. Ans. a
Explanation:
कीमत बढ़ने पर पूर्ति का बढ़ना ही पूर्ति में विस्तार कहलाता है।
27. Ans. b
Explanation:
करों में कमी पैमाने की बचते होती है।
28. Ans. d
Explanation:
उपरोक्त सभी कथन असत्य है।
29. Ans. b
Explanation:
त्यागे गये अवसर की लागत अवसर लागत कहलाती है।
30. Ans. c
Explanation:
त्यागे गये अवसर की लागत अवसर लागत कहलाती है।
31. Ans. a
Explanation:
 $MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{2}{1} = 2$
32. Ans. c
Explanation:

$$AVC = \frac{TVC}{Q} = \frac{78}{9} = 8.66$$

33. Ans. b

Explanation:

$$AFC = \frac{TFC}{Q} = \frac{10}{4} = 2.5$$

34. Ans. b

Explanation:

$$ATC = \frac{TC}{Q} = \frac{120}{10} = 12$$

35. Ans. a

Explanation:

$$TVC = TC - TFC$$

$$66 - 10 = 56 \text{ (TVC)}$$

36. Ans. b

Explanation:

Oikonomia का अर्थ है घरेलू चीजों का प्रबंध।

37. Ans. a

Explanation:

वर्ष 1776 में।

38. Ans. a

Explanation:

श्रम का शोषण बाजार प्रणाली का उपयोग करते हुए संसाधनों का आवंटन एक नुकसान है।

39. Ans. a

Explanation:

श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था में पूंजी गहन तकनीक को नहीं चुना जाएगा।

40. Ans. b

Explanation:

सकारात्मक अर्थशास्त्र तथ्यों से संबंधित है और आदर्श मूलक मूल्य निर्णय से संबंधित है।

41. Ans. c

Explanation:

प्रशासित कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

42. Ans. c

Explanation:

आपूर्ति वक्र हमेशा ऊपर की ओर होता है दाएं-बाएं नहीं।

43. Ans. b

Explanation:

चूंकि प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण आपूर्ति कम हो जाती है।

44. Ans. d
Explanation:
$$\frac{300 - 400}{300 + 400} \times \frac{40 + 50}{40 - 50}$$
$$\frac{100}{700} \times \frac{90}{10} = \frac{9}{7} = 1.2$$
45. Ans. c
Explanation:
मांग में कमी अन्य कारकों के प्रभाव से संबंधित है।
46. Ans. d
Explanation:
$$\frac{800 - 1400}{800 + 1400} \times \frac{1000 + 2000}{1000 - 2000}$$
$$\frac{600}{2200} \times \frac{3000}{1000} = \frac{18}{12} = 0.81$$
47. Ans. a
Explanation:
कीमत और आपूर्ति का सीधा संबंध है।
48. Ans. a
Explanation :
चूंकि जब भी कीमत बढ़ती है तो Q.D. में संकुचन होता है। और जब भी कीमत गिरती है तो Q.D. में विस्तार होता है।
49. Ans. b
Explanation:
चूंकि मांग वक्र के किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच लोच को चाप लोच कहा जाता है।
50. Ans. c
Explanation:
कार्डिनल दृष्टिकोण सीमांत उपयोगिता विश्लेषण है।
51. Ans. b
Explanation:
प्रो. मार्शल के अनुसार उपयोगिता को यूटिल्स द्वारा मापा जाता है।
52. Ans. d
Explanation:
यह कथन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से संबंधित है।
53. Ans. c
Explanation:
जब $MU = Price$.
54. Ans. d
Explanation:
AP कभी शून्य नहीं होता।

55. Ans. b
 Explanation:
 यह द्वितीय चरण का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि द्वितीय चरण में स्थिर कारकों का इष्टतम उपयोग होता है।
56. Ans. c
 Explanation:
 यदि मांग लोचदार है तो कीमत में वृद्धि और व्यय घट जाता है।
57. Ans. c
 Explanation:
 अल्पकाल में कम से कम एक कारक परिवर्तनशील होता है।
58. Ans. b
 Explanation:
 एक तर्कसंगत निर्माता हमेशा चरण II में उत्पादन करता है।
59. Ans. b
 Explanation:
 यह वृद्धिमान पैमाने के प्रतिफल का मामला है।
60. Ans. a
 Explanation:
 क्योंकि पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के मामले में, MRS_{xy} स्थिर है।
61. Ans. b
 Explanation:
 पेश के लिए विशेष ज्ञान और मान्यता और मूल्यांकन निकाय की सदस्यता के आधार पर सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
62. Ans. d
 Explanation:
 सतत् विकास के लिए उपरोक्त सभी आवश्यक हैं।
63. Ans. d
 Explanation:
 भारतीय कंपनी अधिनियम उपरोक्त सभी के पंजीकरण का प्रावधान करता है।
64. Ans. b
 Explanation:
 जिस व्यवसाय में लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं उसे रोजगार कहा जाता है।
65. Ans. b
 Explanation:
 मानव जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकीय वातावरण कहा जाता है।
66. Ans. a
 Explanation:

रणनीतिक प्रतिक्रियाएँ व्यवसायों को अवसर का फायदा उठाने के प्रयास करने चाहिए और खतरों के बारे में सोचना चाहिए।

67. Ans. a
 Explanation:
 श्रीनिवासन वैदयानाथन HDFC बैंक के वर्तमान CFO है।
68. Ans. c
 Explanation:
 Infosys का मुख्यालय बेंगलुरु में है।
69. Ans. c
 Explanation:
 सुप्रतिम दत्ता ITC Group के वर्तमान CFO है।
70. Ans. a
 Explanation:
 मुकेश अम्बानी रिलायंस इण्डस्ट्रीज के वर्तमान CEO हैं।
71. Ans. a
 Explanation:
 Rishad Premji Wipro Limited के वर्तमान अध्यक्ष हैं।
72. Ans. a
 Explanation:
 Mohammed Taj Mukarrum Power Grid Corporation of India Ltd. के CFO है।
73. Ans. a
 Explanation:
 SEBI उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है।
74. Ans. b
 Explanation:
 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करने के लिए आरबीआई को व्यापक शक्ति प्रदान की गई है।
75. Ans. d
 Explanation:
 IRDAI का गठन 2000 में किया गया था।
76. Ans. a
 Explanation:
 IFCI को एक गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनी में परिवर्तित किया गया है।
77. Ans. d
 Explanation:
 स्वीकृतियों और अनुमोदनों का अधिरोपण सुविधाजनक/विकासात्मक नीतियों के कारण नहीं है।
78. Ans. c
 Explanation:
 भारत में सभी क्षेत्रों के लिए FDI की सीमा समान नहीं है।

79. Ans. c
Explanation:
डिस्पोजेबल आय मौद्रिक नीति से संबंधित नहीं है।
80. Ans. d
Explanation:
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण फर्म का आर्थिक उद्देश्य नहीं है।
81. Ans. a
Explanation:
वह शेयर जो आर्थिक गिरावट के समय पर भी एक स्थिर लाभांश व स्थिर आय प्रदान करता है वह सुरक्षात्मक स्कंध कहलाता है।
82. Ans. c
Explanation:
ब्याज, शेयर सूचकांक और बाजार दरों जैसे वित्तीय मापदंडों में बदलाव को बेसिस पॉइंट कहा जाता है।
83. Ans. b
Explanation:
एक बैंक द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज (खरीदार या आयातक की ओर से), अपने ग्राहक द्वारा माल की खरीद के लिए एक तृतीय पक्ष (विक्रेता या निर्यातक), एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने की अपनी प्रतिबद्धता बताते हुए, जो खरीदार कहा जाता है, उसे लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है।
84. Ans. b
Explanation:
यह दो संस्थाओं का संयोग है जो की तब उत्पन्न होता है जब एक संस्थान अपनी सारी सम्पत्तियों को नई संस्था को सौंप देता है, समेकन कहलाता है।
85. Ans. b
Explanation:
पूर्वानुमान एक तरीका है जिसे बाजार में भावी माँग का अनुमान लगाया जा सकता है।
86. Ans. b
Explanation:
प्रवृत्तियों का अर्थ है समान या सम्बन्धित घटनाएँ।
87. Ans. c
Explanation:
रेपो रेट की दर वह दर है, जिस पर बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक को बेचने या बेचने के लिए RBI से धन लेते हैं।
88. Ans. c
Explanation:
चूंकि FMCG से आशय "fast moving consumer goods" होता है।
89. Ans. b
Explanation:
PESTLE समग्र वातावरण की व्याख्या करता है।
90. Ans. b
Explanation:

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उदारीकरण का एक प्रभाव है।

91. Ans. c
 Explanation:
 पर्यावरण अवसर, प्रोत्साहन, पुरस्कार तथा बाधाएँ, खतरे व प्रतिबन्ध उत्पन्न करता है।
92. Ans. b
 Explanation:
 बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा है 49%.
93. Ans. a
 Explanation:
 Overseas Corporate Bodies OCBs का अर्थ है।
94. Ans. b
 Explanation:
 ADR का अर्थ है American Depository Receipt.
95. Ans. a
 Explanation:
 SEBI की स्थापना 1988 में हुई थी।
96. Ans. d
 Explanation:
 मुस्लिम परिवार में हिन्दू अविभाजित परिवार व्यवसाय नहीं पाया जाता।
97. Ans. a
 Explanation:
 PESTLE विश्लेषण का प्रयोग समष्टि पर्यावरण को समझने के लिये किया जाता है।
98. Ans. a
 Explanation:
 ऋण चुकाना (Amortize) एक निश्चित अवधि के दौरान व्यय का एक नियमित हिस्सा चार्ज करना होता है।
99. Ans. c
 Explanation:
 दो समान वस्तुओं या उपकरणों की एक साथ खरीद और बिक्री को Arbitrage कहा जाता है।
100. Ans. d
 Explanation:
 उपरोक्त सभी Bear की स्थिति है।

— ** —